

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 613]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2024 — अश्विन 23, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

### अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-3/2024/एक-5.-भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-20-25-56-पब-एक, दिनांक-8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक-26) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाशों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित दिन भी वर्ष 2025 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :-

### सार्वजनिक अवकाश (अनुसूची)

| क्र.मां.क्र. | अवकाश का नाम              | घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या | ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख | राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्) | सप्ताह का दिन |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| (1)          | (2)                       | (3)                             | (4)                                | (5)  | (6)           |
| 1            | महाशिवरात्रि              | एक                              | 26 फरवरी                           | फाल्गुन 7, 1946                            | बुधवार        |
| 2            | होली                      | एक                              | 14 मार्च                           | चैत्र 23, 1946                             | शुक्रवार      |
| 3            | ईद-उल-फितर                | एक                              | 31 मार्च                           | चैत्र 10, 1947                             | सोमवार        |
| 4            | बैंको की वार्षिक लेखाबंदी | एक                              | 01 अप्रैल                          | चैत्र 11, 1947                             | सोमवार        |
| 5            | महावीर जयंती              | एक                              | 10 अप्रैल                          | चैत्र 20, 1947                             | गुरुवार       |
| 6            | गुड फ्राइडे               | एक                              | 18 अप्रैल                          | चैत्र 28, 1947                             | शुक्रवार      |
| 7            | बुद्ध पूर्णिमा            | एक                              | 12 मई                              | वैशाख 22, 1947                             | सोमवार        |
| 8            | ईद-उल-जुहा (बकरीद)        | एक                              | 07 जून                             | ज्येष्ठ 17, 1947                           | शनिवार        |

|    |                            |    |            |                  |          |
|----|----------------------------|----|------------|------------------|----------|
| 9  | स्वतंत्रता दिवस            | एक | 15 अगस्त   | श्रावण 24, 1947  | शुक्रवार |
| 10 | कृष्ण जन्माष्टमी           | एक | 16 अगस्त   | श्रावण 25, 1947  | शनिवार   |
| 11 | ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)  | एक | 06 सितंबर  | भाद्रपद 14, 1947 | शनिवार   |
| 12 | दशहरा (विजयादशमी)          | एक | 02 अक्टूबर | आश्विन 10, 1947  | गुरुवार  |
| 13 | महात्मा गांधी का जन्म दिवस | एक | 02 अक्टूबर | आश्विन 10, 1947  | गुरुवार  |
| 14 | दीवाली (दीपावली)           | एक | 20 अक्टूबर | आश्विन 28, 1947  | सोमवार   |
| 15 | गुरुनानक जन्म दिवस         | एक | 05 नवम्बर  | कार्तिक 14, 1947 | बुधवार   |
| 16 | किसमस दिवस                 | एक | 25 दिसंबर  | पौष 4, 1947      | गुरुवार  |

टीप : सरल क्रमांक-4 में उल्लेखित अवकाश केवल बैंकों एवं कोषालयों हेतु घोषित है।

(2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :-

| क्र. सं. | अवकाश का नाम | घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या | ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख | राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्) | सप्ताह का दिन |
|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| (1)      | (2)          | (3)                             | (4)                                | (5)  | (6)           |
| 1        | गणतंत्र दिवस | एक                              | 26 जनवरी                           | माघ 6, 1946                                | रविवार        |
| 2        | मोहर्रम      | एक                              | 06 जुलाई                           | आषाढ़ 15, 1947                             | रविवार        |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अविनाश चम्पावत, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

## अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-3/2024/एक-5.-राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं हेतु वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है :-

## (अ) सामान्य अवकाश

| क<br>मां<br>क | अवकाश का नाम                  | घोषित<br>अवकाश<br>के दिवसों<br>की संख्या | ग्रेगोरियन<br>कैलेण्डर के<br>अनुसार<br>तारीख | राष्ट्रीय पंचांग के<br>अनुसार तिथि<br>(शक संवत) | सप्ताह का<br>दिन |
|---------------|-------------------------------|--|--|---|------------------|
| (1)           | (2)                           | (3)                                      | (4)  | (5)   | (6)              |
| 1             | माँ शाकंभरी जयंती एवं छेरछेरा | एक                                       | 13 जनवरी                                     | पौष 23, 1946                                    | सोमवार           |
| 2             | महाशिवरात्रि                  | एक                                       | 26 फरवरी                                     | फाल्गुन 7, 1946                                 | बुधवार           |
| 3             | होली                          | एक                                       | 14 मार्च                                     | फाल्गुन 23, 1946                                | शुक्रवार         |
| 4             | भक्त माता कर्मा जयंती         | एक                                       | 25 मार्च                                     | चैत्र 4, 1947                                   | मंगलवार          |
| 5             | ईद-उल-फितर                    | एक                                       | 31 मार्च                                     | चैत्र 10, 1947                                  | सोमवार           |
| 6             | महावीर जयंती                  | एक                                       | 10 अप्रैल                                    | चैत्र 20, 1947                                  | गुरुवार          |
| 7             | डॉ. अंबेडकर जयंती             | एक                                       | 14 अप्रैल                                    | चैत्र 24, 1947                                  | सोमवार           |
| 8             | गुड फ्राइडे                   | एक                                       | 18 अप्रैल                                    | चैत्र 28, 1947                                  | शुक्रवार         |
| 9             | बुद्ध पूर्णिमा                | एक                                       | 12 मई  | वैशाख 22, 1947                                  | सोमवार           |
| 10            | ईद-उल-जुहा (बकरीद)            | एक                                       | 07 जून                                       | ज्येष्ठ 17, 1947                                | शनिवार           |
| 11            | कबीर जयंती                    | एक                                       | 11 जून                                       | ज्येष्ठ 21, 1947                                | बुधवार           |
| 12            | हरेली                         | एक                                       | 24 जुलाई                                     | श्रावण 2, 1947                                  | गुरुवार          |
| 13            | विश्व आदिवासी दिवस            | एक                                       | 09 अगस्त                                     | श्रावण 18, 1947                                 | शनिवार           |
| 14            | रक्षाबंधन                     | एक                                       | 09 अगस्त                                     | श्रावण 18, 1947                                 | शनिवार           |
| 15            | स्वतंत्रता दिवस               | एक                                       | 15 अगस्त                                     | श्रावण 24, 1947                                 | शुक्रवार         |
| 16            | कृष्ण जन्माष्टमी              | एक                                       | 16 अगस्त                                     | श्रावण 25, 1947                                 | शनिवार           |
| 17            | हरितालिका (तीज पर्व)          | एक                                       | 26 अगस्त                                     | भाद्रपद 4, 1947                                 | मंगलवार          |
| 18            | ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)     | एक                                       | 06 सितंबर                                    | भाद्रपद 14, 1947                                | शनिवार           |
| 19            | दशहरा (विजयादशमी)             | एक                                       | 02 अक्टूबर                                   | आश्विन 10, 1947                                 | गुरुवार          |
| 20            | महात्मा गांधी का जन्म दिवस    | एक                                       | 02 अक्टूबर                                   | आश्विन 10, 1947                                 | गुरुवार          |
| 21            | दीवाली (दीपावली)              | एक                                       | 20 अक्टूबर                                   | आश्विन 28, 1947                                 | सोमवार           |
| 22            | छठ पूजा                       | एक                                       | 27 अक्टूबर                                   | कार्तिक 5, 1947                                 | सोमवार           |
| 23            | गुरुनानक जन्म दिवस            | एक                                       | 05 नवम्बर                                    | कार्तिक 14, 1947                                | बुधवार           |
| 24            | गुरुघासी दास जयंती            | एक                                       | 18 दिसंबर                                    | अग्रहन 27, 1947                                 | गुरुवार          |
| 25            | किसमस दिवस                    | एक                                       | 25 दिसंबर                                    | पौष 4, 1947                                     | गुरुवार          |

## टीप :-

- (1) "निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26)" की धारा-25 के अंतर्गत कोषालय एवं उप कोषालय हेतु सार्वजनिक अवकाश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक-15/10/2024 द्वारा घोषित किए गए हैं।
- (2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :-

| क्र.मां.क्र. | अवकाश का नाम | घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या | ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख | राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्) | सप्ताह का दिन |
|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| (1)          | (2)          | (3)                             | (4)                                | (5)  | (6)           |
| 1            | गणतंत्र दिवस | एक                              | 26 जनवरी                           | माघ 6, 1946                                | रविवार        |
| 2            | रामनवमी      | एक                              | 06 अप्रैल                          | चैत्र 16, 1947                             | रविवार        |
| 3            | मोहर्रम      | एक                              | 06 जुलाई                           | आषाढ 15, 1947                              | रविवार        |

## (ब) ऐच्छिक अवकाश

| क्र.मां.क्र. | अवकाश का नाम                                 | घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या | ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख | राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्) | सप्ताह का दिन |
|--------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| (1)          | (2)  | (3)                             | (4)                                | (5)  | (6)           |
| 1            | नववर्ष दिवस                                  | एक                              | 1 जनवरी                            | पौष 11, 1946                               | बुधवार        |
| 2            | माता सावित्री बाई फुले जयंती                 | एक                              | 3 जनवरी                            | पौष 13, 1946                               | शुक्रवार      |
| 3            | लुई ब्रेल का जन्म दिवस                       | एक                              | 4 जनवरी                            | पौष 14, 1946                               | शनिवार        |
| 4            | गुरु गोविन्द सिंह का जन्म दिवस               | एक                              | 6 जनवरी                            | पौष 16, 1946                               | सोमवार        |
| 5            | राजिम भक्तिन माता जयंती                      | एक                              | 7 जनवरी                            | पौष 17, 1946                               | मंगलवार       |
| 6            | विश्व हिन्दी दिवस                            | एक                              | 10 जनवरी                           | पौष 20, 1946                               | शुक्रवार      |
| 7            | छेरछेरा/माता शाकांभरी जयंती                  | एक                              | 13 जनवरी                           | पौष 23, 1946                               | सोमवार        |
| 8            | मकर संक्रांति/पोंगल                          | एक                              | 14 जनवरी                           | पौष 24, 1946                               | मंगलवार       |
| 9            | हजरत अली का जन्म दिवस                        | एक                              | 14 जनवरी                           | पौष 24, 1946                               | मंगलवार       |
| 10           | शहीद गैदसिंह का शहादत दिवस                   | एक                              | 20 जनवरी                           | पौष 30, 1946                               | सोमवार        |
| 11           | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जयंती                 | एक                              | 23 जनवरी                           | माघ 3, 1946                                | गुरुवार       |
| 12           | बसंत पंचमी/माँ परमेश्वरी जयंती               | एक                              | 3 फरवरी                            | माघ 14, 1946                               | सोमवार        |
| 13           | राजिम मेला माघ पूर्णिमा/संत रविदास जन्म दिवस | एक                              | 12 फरवरी                           | माघ 23, 1946                               | बुधवार        |
| 14           | शब-ए-बारात                                   | एक                              | 14 फरवरी                           | माघ 25, 1946                               | शुक्रवार      |
| 15           | छत्रपति शिवाजी जयंती                         | एक                              | 19 फरवरी                           | माघ 30, 1946                               | बुधवार        |
| 16           | होली (होलिका दहन)                            | एक                              | 13 मार्च                           | फाल्गुन 22, 1946                           | गुरुवार       |
| 17           | रंग पंचमी                                    | एक                              | 19 मार्च                           | फाल्गुन 28, 1946                           | बुधवार        |
| 18           | वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस             | एक                              | 20 मार्च                           | फाल्गुन 29, 1946                           | गुरुवार       |
| 19           | जमात-उल-विदा                                 | एक                              | 28 मार्च                           | चैत्र 7, 1947                              | शुक्रवार      |
| 20           | गुहा निषादराज जयंती                          | एक                              | 2 अप्रैल                           | चैत्र 12, 1947                             | बुधवार        |

|    |  |    |            |                  |          |
|----|--|----|------------|------------------|----------|
| 21 | हाटकेश्वर जयंती  | एक | 11 अप्रैल  | चैत्र 21, 1947   | शुक्रवार |
| 22 | धरती पूजा (खददी पर्व)  | एक | 12 अप्रैल  | चैत्र 22, 1947   | शनिवार   |
| 23 | श्रीमद् वल्लभाचार्य जयंती  | एक | 24 अप्रैल  | वैशाख 4, 1947    | गुरुवार  |
| 24 | सेन जयंती  | एक | 25 अप्रैल  | वैशाख 5, 1947    | शुक्रवार |
| 25 | परशुराम जयंती  | एक | 30 अप्रैल  | वैशाख 10, 1947   | बुधवार   |
| 26 | शंकराचार्य जयंती   | एक | 2 मई       | वैशाख 12, 1947   | शुक्रवार |
| 27 | छत्रसाल जयंती / महाराणा प्रताप जयंती   | एक | 29 मई      | ज्येष्ठ 8, 1947  | गुरुवार  |
| 28 | महेश नवमी (ज्येष्ठ शुक्ल)  | एक | 4 जून      | ज्येष्ठ 14, 1947 | बुधवार   |
| 29 | वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस  | एक | 24 जून     | आषाढ 3, 1947     | मंगलवार  |
| 30 | रथयात्रा   | एक | 27 जून     | आषाढ 6, 1947     | शुक्रवार |
| 31 | डॉ. खूबचंद बघेल का जन्म दिवस   | एक | 19 जुलाई   | आषाढ 28, 1947    | शनिवार   |
| 32 | नाग पंचमी  | एक | 29 जुलाई   | श्रावण 7, 1947   | मंगलवार  |
| 33 | हरछठ   | एक | 14 अगस्त   | श्रावण 23, 1947  | गुरुवार  |
| 34 | पारसी नववर्ष   | एक | 15 अगस्त   | श्रावण 24, 1947  | शुक्रवार |
| 35 | पोला   | एक | 23 अगस्त   | भाद्रपद 1, 1947  | शनिवार   |
| 36 | गणेश चतुर्थी   | एक | 27 अगस्त   | भाद्रपद 5, 1947  | बुधवार   |
| 37 | नवाखाई   | एक | 30 अगस्त   | भाद्रपद 8, 1947  | शनिवार   |
| 38 | ढोल ग्यारस   | एक | 3 सितंबर   | भाद्रपद 12, 1947 | बुधवार   |
| 39 | ओणम  | एक | 5 सितंबर   | भाद्रपद 14, 1947 | शुक्रवार |
| 40 | अनंत चतुर्दशी  | एक | 6 सितंबर   | भाद्रपद 15, 1947 | शनिवार   |
| 41 | विश्वकर्मा जयंती   | एक | 17 सितंबर  | भाद्रपद 26, 1947 | बुधवार   |
| 42 | प्राणनाथ जयंती   | एक | 20 सितंबर  | भाद्रपद 29, 1947 | शनिवार   |
| 43 | अग्रसेन जयंती  | एक | 22 सितंबर  | भाद्रपद 31, 1947 | सोमवार   |
| 44 | दशहरा (महाअष्टमी)  | एक | 30 सितंबर  | आश्विन 8, 1947   | मंगलवार  |
| 45 | दशहरा (महानवमी)  | एक | 1 अक्टूबर  | आश्विन 9, 1947   | बुधवार   |
| 46 | डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस   | एक | 4 अक्टूबर  | आश्विन 12, 1947  | शनिवार   |
| 47 | महर्षि वाल्मिकी जयंती / महाराजा अजमोढ़ देव जयंती / टेकचन्द जी महाराज का समाधि उत्सव / कुवॉर पूर्णिमा "करम परब" (त्यौहार) | एक | 7 अक्टूबर  | आश्विन 15, 1947  | मंगलवार  |
| 48 | करवाचौथ व्रत   | एक | 10 अक्टूबर | आश्विन 18, 1947  | शुक्रवार |
| 49 | दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)  | एक | 21 अक्टूबर | आश्विन 29, 1947  | मंगलवार  |
| 50 | भाई दूज (दीपावली)  | एक | 23 अक्टूबर | कार्तिक 1, 1947  | गुरुवार  |
| 51 | भगवान सहस्त्रबाहु जयंती  | एक | 28 अक्टूबर | कार्तिक 6, 1947  | मंगलवार  |
| 52 | नामदेव जयंती   | एक | 1 नवम्बर   | कार्तिक 10, 1947 | शनिवार   |
| 53 | गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस   | एक | 25 नवंबर   | अग्रहन 4, 1947   | मंगलवार  |
| 54 | दत्तात्रेय जयंती   | एक | 4 दिसंबर   | अग्रहन 13, 1947  | गुरुवार  |
| 55 | शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान दिवस  | एक | 10 दिसंबर  | अग्रहन 19, 1946  | बुधवार   |

**टीप :-**

- (1) प्रत्येक शासकीय सेवक को उपरोक्त ऐच्छिक अवकाशों में से उसकी इच्छानुसार केवल 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
- (2) निम्नलिखित ऐच्छिक अवकाशों के दिन रविवार होने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की उक्त सूची में शामिल नहीं किया गया है :-

| क्रमांक | अवकाश का नाम                | घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या | ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख | राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्) | सप्ताह का दिन |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| (1)     | (2)                         | (3)                             | (4)                                | (5)  | (6)           |
| 1       | महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती | एक                              | 23 फरवरी                           | फाल्गुन 4, 1946                            | रविवार        |
| 2       | भाई-दूज (होली)              | एक                              | 16 मार्च                           | फाल्गुन 25, 1946                           | रविवार        |
| 3       | गुडी पड़वा / चैतीचांद       | एक                              | 30 मार्च                           | चैत्र 9, 1947                              | रविवार        |
| 4       | बैशाखी                      | एक                              | 13 अप्रैल                          | चैत्र 23, 1947                             | रविवार        |
| 5       | सर्व पितृमोक्ष अमावस्या     | एक                              | 21 सितंबर                          | भाद्रपद 30, 1947                           | रविवार        |
| 6       | दीपावली (दक्षिण भारतीय)     | एक                              | 19 अक्टूबर                         | आश्विन 27, 1947                            | रविवार        |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अविनाश चम्पावत, सचिव.